

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 121]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 12 मार्च 2022 — फाल्गुन 21, शक 1943

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शनिवार, दिनांक 12 मार्च, 2022 (फाल्गुन 21, 1943)

क्रमांक - 3336/वि.स./विधान/2022. - छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2022 (क्रमांक 4 सन् 2022) पुरःस्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता./—

(चन्द्र शेखर गंगराडे)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 4 सन् 2022)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2022

वित्तीय वर्ष 2022-2023 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

| | |
|--|---|
| संक्षिप्त नाम. | 1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) अधिनियम, 2022 कहलाएगा। |
| वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए राज्य की संचित निधि में से 11,26,03,40,29,000 /- /- रूपयों का दिया जाना। | 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग 11,26,03,40,29,000 /- (एक लाख बारह हजार छः सौ तीन करोड़ चालीस लाख उनतीस हजार) रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे। |
| विनियोग. | 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी। |

वर्ष 2022-2023 के लिये अनुदानों की मांगों तथा विनियोगों की अनुसूची
(राज्यपाल द्वारा सिफारिश किये गये रूप में)

| मांग संख्या | सेवा या प्रशासन जिससे अनुदान की मांग संबंधित है | | सम्पूर्ण धनराशि | | |
|-------------|--|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | मतदेय | भारित | योग |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) |
| | भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा | राजस्व | 0 | 70,02,69,65,000 | 70,02,69,65,000 |
| .. | भारित विनियोग- लोक ऋण | पूंजी | 0 | 60,11,90,00,000 | 60,11,90,00,000 |
| 01 | सामान्य प्रशासन | राजस्व | 2,87,70,21,000 | 41,26,29,000 | 3,28,96,50,000 |
| | | पूंजी | 51,98,60,000 | 0 | 51,98,60,000 |
| 02 | सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय | राजस्व | 3,49,53,40,000 | 0 | 3,49,53,40,000 |
| | | पूंजी | 80,07,50,000 | 0 | 80,07,50,000 |
| 03 | पुलिस | राजस्व | 54,30,56,87,000 | 1,26,00,000 | 54,31,82,87,000 |
| | | पूंजी | 2,35,21,35,000 | 0 | 2,35,21,35,000 |
| 04 | गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय | राजस्व | 80,38,84,000 | 0 | 80,38,84,000 |
| | | पूंजी | 5,29,12,000 | 0 | 5,29,12,000 |
| 05 | जेल | राजस्व | 1,96,48,40,000 | 10,000 | 1,96,48,50,000 |
| | | पूंजी | 1,01,10,000 | 0 | 1,01,10,000 |
| 06 | वित्त विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 77,31,52,95,000 | 1,93,41,000 | 77,33,46,36,000 |
| | | पूंजी | 2,71,30,000 | 0 | 2,71,30,000 |
| 07 | वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 2,91,70,93,000 | 70,06,35,000 | 3,61,77,28,000 |
| | | पूंजी | 1,32,10,000 | 0 | 1,32,10,000 |
| 08 | भू राजस्व तथा जिला प्रशासन | राजस्व | 12,69,01,55,000 | 15,26,000 | 12,69,16,81,000 |
| | | पूंजी | 2,34,95,50,000 | 0 | 2,34,95,50,000 |
| 09 | राजस्व विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 21,43,45,000 | 10,000 | 21,43,55,000 |
| | | पूंजी | 50,00,000 | 0 | 50,00,000 |
| 10 | वन | राजस्व | 17,98,34,63,000 | 4,56,40,000 | 18,02,91,03,000 |
| | | पूंजी | 16,56,66,000 | 0 | 16,56,66,000 |
| 11 | वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 2,54,65,25,000 | 7,85,000 | 2,54,73,10,000 |
| | | पूंजी | 91,29,10,000 | 5,00,000 | 91,34,10,000 |
| 12 | ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 22,42,47,15,000 | 2,70,00,00,000 | 25,12,47,15,000 |
| | | पूंजी | 3,91,70,23,000 | 0 | 3,91,70,23,000 |
| 13 | कृषि | राजस्व | 52,72,70,62,000 | 17,50,000 | 52,72,88,12,000 |
| | | पूंजी | 33,88,70,000 | 0 | 33,88,70,000 |
| 14 | पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 4,64,02,07,000 | 20,00,000 | 4,64,22,07,000 |
| | | पूंजी | 4,86,00,000 | 0 | 4,86,00,000 |
| 15 | अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | राजस्व | 1,49,86,42,000 | 0 | 1,49,86,42,000 |
| | | पूंजी | 1,14,00,00,000 | 0 | 1,14,00,00,000 |
| 16 | मछली पालन | राजस्व | 82,79,56,000 | 10,000 | 82,79,66,000 |
| | | पूंजी | 1,03,00,000 | 0 | 1,03,00,000 |
| 17 | सहकारिता | राजस्व | 2,31,37,40,000 | 15,000 | 2,31,37,55,000 |
| | | पूंजी | 26,21,51,000 | 0 | 26,21,51,000 |

| मांग संख्या | सेवा या प्रशासन जिससे अनुदान की मांग संबंधित है | | सम्पूर्ण धनराशि | | |
|-------------|--|--------|-------------------|--------------|-------------------|
| | | | मतदेय | भारित | योग |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) |
| 18 | श्रम | राजस्व | 1,55,64,17,000 | 10,000 | 1,55,64,27,000 |
| | | पूंजी | 40,00,000 | 0 | 40,00,000 |
| 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | राजस्व | 27,76,66,75,000 | 58,50,000 | 27,77,25,25,000 |
| | | पूंजी | 46,52,10,000 | 0 | 46,52,10,000 |
| 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | राजस्व | 2,96,83,72,000 | 16,00,000 | 2,96,99,72,000 |
| | | पूंजी | 5,72,71,07,000 | 0 | 5,72,71,07,000 |
| 21 | आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 2,18,72,74,000 | 0 | 2,18,72,74,000 |
| | | पूंजी | 3,60,42,90,000 | 0 | 3,60,42,90,000 |
| 22 | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय निकाय | राजस्व | 13,75,71,000 | 5,000 | 13,75,76,000 |
| 23 | जल संसाधन विभाग | राजस्व | 6,03,39,13,000 | 1,10,000 | 6,03,40,23,000 |
| | | पूंजी | 5,79,20,60,000 | 55,00,000 | 5,79,75,60,000 |
| 24 | लोक निर्माण कार्य-सडकें और पुल | राजस्व | 9,38,25,67,000 | 0 | 9,38,25,67,000 |
| | | पूंजी | 16,67,51,00,000 | 10,10,00,000 | 16,77,61,00,000 |
| 25 | खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 4,80,31,40,000 | 5,00,000 | 4,80,36,40,000 |
| | | पूंजी | 2,71,39,02,000 | 0 | 2,71,39,02,000 |
| 26 | संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 52,08,39,000 | 0 | 52,08,39,000 |
| | | पूंजी | 37,50,000 | 0 | 37,50,000 |
| 27 | स्कूल शिक्षा | राजस्व | 55,98,16,60,000 | 30,00,000 | 55,98,46,60,000 |
| | | पूंजी | 34,34,30,000 | 0 | 34,34,30,000 |
| 28 | राज्य विधान मंडल | राजस्व | 68,43,60,000 | 88,00,000 | 69,31,60,000 |
| | | पूंजी | 1,00,00,000 | 0 | 1,00,00,000 |
| 29 | न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन | राजस्व | 4,47,58,40,000 | 95,31,53,000 | 5,42,89,93,000 |
| | | पूंजी | 12,37,50,000 | 53,00,000 | 12,90,50,000 |
| 30 | पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 28,75,80,43,000 | 19,00,000 | 28,75,99,43,000 |
| | | पूंजी | 6,19,03,00,000 | 0 | 6,19,03,00,000 |
| 31 | योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 53,79,48,000 | 40,000 | 53,79,88,000 |
| | | पूंजी | 27,50,000 | 0 | 27,50,000 |
| 32 | जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 3,19,23,10,000 | 10,000 | 3,19,23,20,000 |
| | | पूंजी | 64,00,000 | 0 | 64,00,000 |
| 33 | आदिम जाति कल्याण | राजस्व | 52,19,11,46,000 | 34,00,000 | 52,19,45,46,000 |
| | | पूंजी | 5,55,00,000 | 0 | 5,55,00,000 |
| 34 | समाज कल्याण | राजस्व | 1,07,13,10,000 | 40,000 | 1,07,13,50,000 |
| | | पूंजी | 8,51,00,000 | 0 | 8,51,00,000 |
| 35 | पुनर्वास | राजस्व | 1,94,03,000 | 0 | 1,94,03,000 |
| 36 | परिवहन | राजस्व | 92,74,69,000 | 20,50,000 | 92,95,19,000 |
| | | पूंजी | 12,33,70,000 | 0 | 12,33,70,000 |
| 37 | पर्यटन | राजस्व | 51,48,17,000 | 0 | 51,48,17,000 |
| | | पूंजी | 74,76,01,000 | 0 | 74,76,01,000 |
| 39 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 25,24,39,10,000 | 50,000 | 25,24,39,60,000 |
| | | पूंजी | 24,07,70,000 | 0 | 24,07,70,000 |
| 41 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना | राजस्व | 1,61,26,13,80,000 | 10,000 | 1,61,26,13,90,000 |

| क्र.सं. | सेवा या प्रशासन जिससे अनुदान की मांग संबंधित है | | सम्पूर्ण धनराशि | | |
|---------|---|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | मतदेय | भारित | योग |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) |
| | | पूँजी | 31,64,82,47,000 | 15,00,000 | 31,64,97,47,000 |
| 42 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल | पूँजी | 12,38,16,06,000 | 2,00,00,000 | 12,40,16,06,000 |
| 43 | खेल और युवक कल्याण | राजस्व | 68,71,15,000 | 30,000 | 68,71,45,000 |
| | | पूँजी | 1,57,50,000 | 0 | 1,57,50,000 |
| 44 | उच्च शिक्षा | राजस्व | 8,34,75,90,000 | 1,10,000 | 8,34,77,00,000 |
| | | पूँजी | 23,22,00,000 | 0 | 23,22,00,000 |
| 45 | लघु सिंचाई निर्माण कार्य | राजस्व | 80,14,36,000 | 0 | 80,14,36,000 |
| | | पूँजी | 6,79,50,97,000 | 0 | 6,79,50,97,000 |
| 46 | विज्ञान और टेक्नोलॉजी | राजस्व | 21,75,00,000 | 0 | 21,75,00,000 |
| | | पूँजी | 3,60,00,000 | 0 | 3,60,00,000 |
| 47 | कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग | राजस्व | 3,63,77,90,000 | 20,000 | 3,63,78,10,000 |
| | | पूँजी | 17,53,50,000 | 0 | 17,53,50,000 |
| 49 | अनुसूचित जाति कल्याण | राजस्व | 5,26,10,000 | 0 | 5,26,10,000 |
| 50 | बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 3,85,25,000 | 0 | 3,85,25,000 |
| 51 | धार्मिक न्यास और धर्मस्व | राजस्व | 14,25,00,000 | 0 | 14,25,00,000 |
| | | पूँजी | 4,50,00,000 | 0 | 4,50,00,000 |
| 53 | अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | राजस्व | 24,89,40,000 | 0 | 24,89,40,000 |
| | | पूँजी | 56,10,00,000 | 0 | 56,10,00,000 |
| 54 | कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय | राजस्व | 2,12,80,10,000 | 0 | 2,12,80,10,000 |
| | | पूँजी | 59,20,02,000 | 0 | 59,20,02,000 |
| 55 | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय | राजस्व | 11,21,18,33,000 | 10,000 | 11,21,18,43,000 |
| | | पूँजी | 15,15,67,000 | 0 | 15,15,67,000 |
| 56 | ग्रामोद्योग | राजस्व | 1,14,85,94,000 | 0 | 1,14,85,94,000 |
| | | पूँजी | 2,95,40,000 | 0 | 2,95,40,000 |
| 57 | जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें | पूँजी | 2,00,00,000 | 0 | 2,00,00,000 |
| 58 | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय | राजस्व | 11,10,54,60,000 | 0 | 11,10,54,60,000 |
| | | पूँजी | 20,00,000 | 0 | 20,00,000 |
| 60 | जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय | राजस्व | 65,00,000 | 0 | 65,00,000 |
| | | पूँजी | 2,08,00,00,000 | 0 | 2,08,00,00,000 |
| 64 | अनुसूचित जाति उपयोजना | राजस्व | 52,87,40,02,000 | 10,000 | 52,87,40,12,000 |
| | | पूँजी | 9,80,98,45,000 | 0 | 9,80,98,45,000 |
| 65 | विमानन विभाग | राजस्व | 54,48,78,000 | 10,000 | 54,48,88,000 |
| | | पूँजी | 7,00,50,000 | 0 | 7,00,50,000 |
| 66 | पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण | राजस्व | 2,35,55,30,000 | 0 | 2,35,55,30,000 |
| | | पूँजी | 18,16,00,000 | 0 | 18,16,00,000 |
| 67 | लोक निर्माण कार्य - भवन | राजस्व | 7,03,18,90,000 | 1,46,00,000 | 7,04,64,90,000 |
| | | पूँजी | 8,00,31,96,000 | 0 | 8,00,31,96,000 |
| 68 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना से | पूँजी | 1,28,76,33,000 | 0 | 1,28,76,33,000 |

| मांग संख्या | सेवा या प्रशासन जिससे अनुदान की मांग संबंधित है | | सम्पूर्ण धनराशि | | |
|-------------|--|--------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | मतदेय | भारित | योग |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) |
| | संबंधित लोक निर्माण कार्य - भवन | | | | |
| 69 | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय कल्याण | राजस्व | 8,68,96,72,000 | 0 | 8,68,96,72,000 |
| 71 | इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग | राजस्व | 1,22,92,67,000 | 0 | 1,22,92,67,000 |
| | | पूंजी | 69,40,00,000 | 0 | 69,40,00,000 |
| 75 | जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं | पूंजी | 6,89,71,00,000 | 0 | 6,89,71,00,000 |
| 76 | लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं | पूंजी | 9,40,15,03,000 | 0 | 9,40,15,03,000 |
| 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 10,18,64,91,000 | 3,20,000 | 10,18,68,11,000 |
| | | पूंजी | 90,28,60,000 | 0 | 90,28,60,000 |
| 80 | त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | राजस्व | 30,39,98,91,000 | 0 | 30,39,98,91,000 |
| | | पूंजी | 4,33,00,00,000 | 0 | 4,33,00,00,000 |
| 81 | नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | राजस्व | 18,69,47,12,000 | 40,25,59,000 | 19,09,72,71,000 |
| | | पूंजी | 7,72,10,00,000 | 0 | 7,72,10,00,000 |
| 82 | अनुसूचित जनजाति उपयोग के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | राजस्व | 2,45,92,33,000 | 0 | 2,45,92,33,000 |
| | | पूंजी | 3,33,00,00,000 | 0 | 3,33,00,00,000 |
| 83 | अनुसूचित जनजाति उप योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | राजस्व | 56,31,00,000 | 0 | 56,31,00,000 |
| | | पूंजी | 65,90,00,000 | 0 | 65,90,00,000 |
| | योग - राजस्व | | 8,26,56,54,03,000 | 75,32,21,13,000 | 9,01,88,75,16,000 |
| | योग - पूंजी | | 1,63,89,37,13,000 | 60,25,28,00,000 | 2,24,14,65,13,000 |
| | वृहद योग | | 9,90,45,91,16,000 | 1,35,57,49,13,000 | 11,26,03,40,29,000 |

उद्देश्य और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है।

रायपुर,
दिनांक 06 मार्च, 2022

भूपेश बघेल,
मुख्यमंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

“संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित”

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा